



UTTAR PRADESH POLICE

“सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा”



******प्रेस नोट-17.12.2020******

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री अजय कुमार के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के दौरान थाना खैरगढ पुलिस टीम एवं एसटीएफ टीम द्वारा 20000 रुपये के इनामी अपराधी को किया गिरफ्तार ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा चलाये जा रहे वांछित /पुरूस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी के अभियान के अनुक्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 17.12.2020 को मैं नरेन्द्र कुमार शर्मा थानाध्यक्ष थाना खैरगढ मय पुलिस टीम के चैकिंग संदिग्ध वाहन / व्यक्ति शिकोहाबाद बार्डर ग्राम ककरारा के पास चैकिंग कर रहा था । उसी समय एसटीएफ आगरा की टीम उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार , उ0नि0 श्री मानवेन्द्र सिंह , मय हमराहीगण एवं सरकारी गाडी के चैकिंग प्वाइंट पर आये । हम लोग आपस में जुर्म जरायम पर ही बातचीत कर रहे थे मुखबिर खास ने आकर सूचना दी कि थाना खैरगढ से 20000/- रुपये का इनामी अपराधी रामअवतार पुत्र रामप्रकाश यादव निवासी बिजौली थाना खैरगढ जिला फिरोजाबाद कहीं जाने की फिराक ग्राम प्रतापपुर चौराहे पर खडा है । मुखबिर की बात का यकीन कर मैं थानाध्यक्ष मय हमराही पुलिस बल एवम एसटीएफ टीम के संयुक्त रूप से सरकारी गाडियो से चलकर ग्राम प्रतापपुर आये । ग्राम प्रतापपुर चौराहा पर पहुंचने से पहले ही मुखबिर ने गाडी को रूकवाकर उतरकर इशारा करके बताया और संयुक्त रूप से हम लोगो ने दबिश देकर मुखबिर द्वारा बताये गये व्यक्ति को पकड लिया । पकडा गया व्यक्ति नाम रामअवतार पुत्र रामप्रकाश यादव निवासी ग्राम बिजौली थाना खैरगढ जिला फिरोजाबाद बताया जो थाना खैरगढ के मु0अ0स0 1.मु0अ0स0 180/2020 धारा 272,304,420,468,471120बी भादवि व 60,60ए,63 आबकारी एक्ट थाना खैरगढ,फिरोजाबाद 2. मु0अ0स0 183/2020 धारा 272,304,420,468,471120बी भादवि व 60,60ए,63 आबकारी एक्ट थाना खैरगढ , फिरोजाबाद में वांछित तथा पुरूस्कार घोषित अपराधी है ।

नाम पता गिरफ्तारशुदा पुरस्कार घोषित अभियुक्त-

1-रामअवतार पुत्र रामप्रकाश यादव निवासी बिजौली थाना खैरगढ जिला फिरोजाबाद

आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0स0 180/2020 धारा 272,304,420,468,471120बी भादवि व 60,60ए,63 आबकारी एक्ट थाना खैरगढ , फिरोजाबाद
2. मु0अ0स0 183/2020 धारा 272,304,420,468,471120बी भादवि व 60,60ए,63 आबकारी एक्ट थाना खैरगढ , फिरोजाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना खैरगढ जिला फिरोजाबाद ।
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार एसटीएफ आगरा ।
3. उ0नि0 श्री मानवेन्द्र सिंह एसटीएफ आगरा ।
4. आरक्षी सन्तोष कुमार एसटीएफ आगरा ।
5. आरक्षी प्रशान्त चौहान एसटीएफ आगरा ।
6. कमाण्डो राजपाल सिंह यादव एसटीएफ आगरा ।
7. आरक्षी 74 रोहताश कुमार थाना खैरगढ जिला फिरोजाबाद ।
8. आरक्षी 1060 राहुल कुमार थाना खैरगढ जिला फिरोजाबाद ।